



25 जुलाई 2022

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट



Moneywise. Be wise.



## प्रमुख खबरें

- ईसीबी ने ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है जो 2011 के बाद पहली बार बढ़ोतरी है।
- सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार स्विटजरलैंड ने जून में रूस से करीब 16 मिलियन डॉलर मूल्य का 284 किलोग्राम सोना आयात किया है, जो मई में लगभग 200 मिलियन डॉलर मूल्य के 3 टन से कम है।
- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन (एसईए) ऑफ इंडिया के मुताबिक, भारत का ऑयलमील निर्यात जून में दो गुना बढ़कर 4,31,840 टन हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में निर्यात 2,03,868 टन था।
- नकल माइनर वेले इंडोनेशिया ने अप्रैल-जून की अवधि में 12,567 टन निकल मैट उत्पादन किया, जो पिछले साल की समान अवधि के 15,048 टन से 16.5% कम है।
- कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 23,250 रुपये प्रति टन से घटाकर 17,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया। डीजल पर निर्यात शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
- भारत में मोटे अनाज का उत्पादन 2016-17 में 276.5 लाख टन से बढ़कर 2021-22 में 347.7 लाख टन हो गया है (तीसरा अग्रिम अनुमान): भारतीय कृषि मंत्रालय।
- एंटाइक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चीन में प्राथमिक एल्युमीनियम का उत्पादन जून महीने में 0.9 प्रतिशत बढ़कर 3.39 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।
- एडीबी ने कोविड और युद्ध के प्रभाव के बीच मुद्रास्फीति के दबाव के कारण वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 7.2% तक घटा दिया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में 3.7 टन सोना खरीदा है जिससे उसका कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर 768.8 टन हो गया।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	15.07.22	21.07.22	बदलाव (%)
कपास	1,786.00	2,105.00	17.86%
कॉटनऑयलसीडकेक	2,521.00	2,717.00	7.77%
जीरा	22,645.00	23,900.00	5.54%
ग्वारसीड	5,010.00	5,182.00	3.43%
धनिया	11,872.00	12,194.00	2.71%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	15.07.22	21.07.22	बदलाव (%)
धान 1121	4,823.00	4,518.00	-6.32%
स्टील	53,460.00	50,500.00	-5.54%
बाजरा	2,111.00	2,064.00	-2.23%
सीसेम सीड	13,260.00	13,055.00	-1.55%
कॉटन	41,820.00	41,490.00	-0.79%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	15.07.22	21.07.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	555.60	639.60	15.12%
कॉटन	42440.00	43960.00	3.58%
एल्युमीनियम	204.70	210.50	2.83%
कच्चा तेल	7594.00	7778.00	2.42%
लेड	173.55	177.55	2.30%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	15.07.22	21.07.22	बदलाव (%)
मेंथा ऑयल	1004.90	1001.30	-0.36%
चांदी	55587.00	55411.00	-0.32%
चांदी एम	56097.00	56006.00	-0.16%
चांदी माइक्रो	56154.00	56087.00	-0.12%

## साप्ताहिक समीक्षा

मंदी के डर की चर्चाओं के कारण सीआरबी इंडेक्स नरमी के रूझान के साथ एक दायरे में फंस गया और बाजार ने डॉलर सूचकांक में एच स्तर से गिरावट को नजरअंदाज कर दिया। अगस्त, 2021 के बाद पहली बार अमेरिकी सोना 1700 डॉलर से नीचे टूट गया। एमसीएक्स पर, भी यह 50000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। लेकिन भारतीय रुपये में मूल्यहास के कारण कीमतों में तेज गिरावट नहीं हुई। चांदी की कीमतें लगातार आठवें सप्ताह लुढ़क गईं और 63000 के उच्च स्तर से नीचे आकर 55,000 के करीब बंद हुईं। गुरुवार को सोने की कीमतें लगभग एक साल में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गईं, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए ब्याज दरों में अधिक बढ़ोतरी की संभावना से सर्राफा की मांग दबाव पड़ा। बेस मेटल में तांबे की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। कई सप्ताह के दबाव के बाद बेस मेटल में गिरावट देखी गई। छह सप्ताह की अवधि में तांबा 800 के उच्च स्तर से गिरकर 600 पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी से एल्युमीनियम की कीमतों में दो सप्ताह में 166 के निचले स्तर से 178 तक बहुत तेज उछाल देखी गई। शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में आर्थिक विकास दूसरी तिमाही में काफी तेजी से धीमा हो गया और साल-दर-साल 0.4% की वृद्धि हुई और अनुमान से कम रह गई, क्योंकि रिकॉर्ड कोविड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक लॉकडाउन ने औद्योगिक गतिविधि और उपभोक्ता खर्च को प्रभावित किया। मंदी की खबर के बावजूद एनर्जी काउंटर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। नेचुरल गैस की कीमतों में पिछले तीन सप्ताह से तेज उछाल देखा गया। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त दर्ज करने की कोशिश की लेकिन सप्ताह के दूसरे भाग में कुछ मुनाफावसूली देखी गई। गुरुवार को तेल की कीमतों में गिरावट हुई क्योंकि वैश्विक केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति पर काबू पाने के प्रयासों और तेल उत्पाद की मांग कमजोर होने और अमेरिका में गर्मियों के दिनों में अधिकतम ड्राइविंग के दौरान गैसोलिन की मांग कम हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी गैसोलिन का भंडार पिछले सप्ताह 3.5 मिलियन बैरल बढ़ा है। नॉर्ड स्ट्रीम से आपूर्ति फिर से शुरू होने से एमसीएक्स पर गैस की कीमतों में कुछ मुनाफावसूली देखी गई। रूस द्वारा जर्मनी को शिपमेंट फिर से शुरू करने के साथ यूक्रेन में युद्ध के कारण स्थायी कटौती की आशंकाओं को दूर होने से यूरोपीय नेचुरल गैस वायदा तीन सप्ताह में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया।

कृषि में, कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में निचले स्तर से रिकवरी हुई। पिछले कुछ हफ्तों में आईसीई कॉटन की कीमतों में गिरावट के बावजूद, एमसीएक्स में कॉटन की कीमतें कपास कम उपलब्धता के कारण उच्च स्तर पर कारोबार करने में सफल रही। देश में अत्यधिक बारिश के कारण खड़ी फसल को नुकसान होने की खबरों के बाद कपड़ा उद्योगों की ओर से कुछ मांग की खबरों से कपास की कीमतों में तेजी आई है। अरंडीसीड की कीमतों में अपने सपोर्ट स्तर 7200 के करीब से रिकवरी हुई हैं। गुजरात में 19 जुलाई तक अरंडी का रकबा पिछले वर्ष की समान अवधि के 23,900 हेक्टेयर की तुलना में कम होकर 11,100 हेक्टेयर रह गया है। पिछले सप्ताह निचले स्तर की खरीदारी और कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग के कारण ग्वार काउंटर की कीमतें की गिरावट पर रोक देखी गई। मसालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहा जिसमें इन तीनों में खरीदारी हुई।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	15.07.22	21.07.22	(%)
जौ	जयपुर	3,150.00	3,140.85	-0.29
चना	दिल्ली	4,906.05	4,962.60	1.15
धनिया	कोटा	12,168.70	12,254.65	0.71
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,089.05	1,101.25	1.12
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,252.35	1,249.55	-0.22
ग्वारसीड	जोधपुर	5,153.50	5,199.25	0.89
ग्वारगम	जोधपुर	9,770.30	9,591.75	-1.83
जीरा	ऊंझा	22,497.60	23,464.55	4.30
सरसों	जयपुर	6,860.10	6,851.30	-0.13
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,240.00	1,240.00	0.00
सोयाबीन	इंदौर	6,179.10	6,224.15	0.73
हल्दी	निजामाबाद	8,027.00	8,018.00	-0.11
गेहूं	दिल्ली	2,352.50	2,350.00	-0.11
कॉटन	कड़ी	42,906.35	42,189.25	-1.67
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,739.10	2,817.65	2.87

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	15.07.22	21.07.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2,343.00	2,420.50	3.31
तांबा	LME	नकद	7,190.50	7,322.00	1.83
लेड	LME	नकद	1,944.00	2,012.00	3.50
निकल	LME	नकद	19,385.00	21,478.00	10.80
जिंक	LME	नकद	2,915.00	2,936.00	0.72
सोना	COMEX	अगस्त	1,703.60	1,713.40	0.58
चांदी	COMEX	सितम्बर	18.59	18.72	0.70
लाइट कूड	NYMEX	अगस्त	97.59	96.35	-1.27
नेचुरल गैस	NYMEX	अगस्त	7.02	7.930	12.96

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	15.07.22	21.07.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	सितम्बर	13.59	13.17	-3.09
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	59.12	57.17	-3.30
कॉटन	ICE	अक्टूबर	88.71	91.60	3.26
सीपीओ	BMD	अक्टूबर	3,588.00	3,720.00	3.68

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	15.07.22 क्वांटिटी	21.07.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	40	30	-10
जौ	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	44,466	39,747	-4719
धनिया	मी.टन	10,198	10,182	-16
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	31,310	28,208	-3102
ग्वारगम	मी.टन	15,908	14,417	-1491
ग्वारसीड	मी.टन	22,556	21,439	-1117
जीरा	मी.टन	5,600	5,437	-163
मक्का	मी.टन	0	-0	0
सोयाबीन	मी.टन	214	144	-70
हल्दी	मी.टन	5,198	3,397	-1801

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	15.07.22 क्वांटिटी	21.07.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	2,154.52	2,135.70	-19
तांबा	मी.टन	2,229,751.00	2,303,094.00	73343
सोना	किग्रा	456.00	416.00	-40
सोना गिनी	किग्रा	14,096.00	14,096.00	0
सोना मिनी	किग्रा	129,000.00	96,400.00	-32600
लेड	किग्रा	405.52	405.52	0
निकल	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	41,728.22	56,983.30	15255
जिंक	मी.टन	104.94	104.94	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 15.07.22	स्टॉक की स्थिति 21.07.22	अंतर
एल्युमीनियम	336,850	320,675	-16,175
तांबा	129,250	135,575	6,325
निकल	63,492	61,410	-2,082
लेड	39,225	39,325	100
जिंक	79,475	73,425	-6,050



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अगस्त	23900.00	11.05.22	तेजी	21200.00	23330.00	-	23300.00
NCDEX	हल्दी	अगस्त	<b>7846.00</b>	<b>19.07.22</b>	तेजी	<b>7700.00</b>	<b>7600.00</b>	-	<b>7550.00</b>
NCDEX	ग्वारसीड	अगस्त	5182.00	30.05.22	मंदी	6000.00	-	5430.00	5450.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अगस्त	7382.00	14.07.22	तेजी	7270.00	7140.00	-	7100.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अगस्त	2717.00	04.04.22	मंदी	3200.00	-	2920.00	2950.00
MCX	कॉटन	अगस्त	41990.00	14.07.22	मंदी	41350.00	-	43480.00	43550.00
MCX	मंथा ऑयल	अगस्त	1022.10	23.05.22	मंदी	1080.00	-	1045.00	1050.00
MCX	बुलडेक्स	अगस्त	13924.00	05.07.22	मंदी	14300.00	-	14250.00	14300.00
MCX	चांदी	सितम्बर	55411.00	23.06.22	मंदी	59504.00	-	57450.00	57500.00
MCX	सोना	अगस्त	50375.00	05.07.22	मंदी	52000.00	-	51000.00	51100.00
MCX	मेटलडेक्स	जुलाई	16491.00	23.06.22	साइडवेज	1796.30	16000.00	17000.00	-
MCX	तांबा	जुलाई	622.85	13.06.22	मंदी	770.00	-	669.00	670.00
MCX	लेड	जुलाई	177.55	25.04.22	मंदी	187.00	-	181.50	182.00
MCX	जिंक	जुलाई	274.40	13.06.22	मंदी	315.00	-	289.00	290.00
MCX	एल्युमिनियम	जुलाई	210.50	13.06.22	मंदी	225.00	-	218.50	219.00
MCX	कच्चा तेल	अगस्त	7778.00	23.06.22	मंदी	8222.00	-	8350.00	8400.00
MCX	नेचुरल गैस	अगस्त	<b>631.40</b>	<b>15.07.22</b>	तेजी	<b>520.00</b>	<b>560.00</b>	-	<b>555.00</b>

\*21/07/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।

2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्किंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### एल्युमीनियम ( अगस्त ) एमसीएक्स



### एल्युमीनियम ( अगस्त ) एमसीएक्स

एमसीएक्स में एल्युमीनियम (अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 21 जुलाई 2022 को 211.70 रु पर बंद हुआ। 23 जून 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 217.20 रु के उच्च स्तर पर था। 15 जुलाई 2022 को 203.10 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 45.31 है। 203.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 221.00 रु के टारगेट के लिए 209.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### ग्वारगम ( अगस्त ) एनसीडीईएक्स



### ग्वारगम ( अगस्त ) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में ग्वारगम(अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 21 जुलाई 2022 को 9479.00 रु पर बंद हुआ। 15 जून 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 11083.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 18 जुलाई 2022 को 9063.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 34.909 है। 9150.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 9900.00 रु के टारगेट के लिए 9400.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### लेड ( अगस्त ) एमसीएक्स



### लेड ( अगस्त ) एमसीएक्स

एमसीएक्स में लेड(अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 21 जुलाई 2022 को 176.00 रु पर बंद हुआ। 21 जुलाई 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 177.45 रु के उच्च स्तर पर था। 14 जुलाई 2022 को 164.45 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 52.947 है। 169.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 181.00 रु के टारगेट के लिए 173.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मिले-जुले फंडामेंटल के कारण हल्दी वायदा (अगस्त) की कीमतों के एक दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह उच्च स्तरों पर बिकवाली के दबाव के कारण कीमतें 8060 के स्तर के रजिस्ट्रेस को पार करने में सक्षम नहीं हो सकी। कीमतों को 7650 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है। पर्याप्त स्टॉक और अच्छी बुवाई रिपोर्ट के कारण हल्दी की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। वहीं, मौसमी मांग कम है, इसलिए हल्दी की कीमतें निकट अवधि में कीमतों के एक दायरे में रहने की उम्मीद है। पिछले साल किसानों को अधिक कीमत मिलने के कारण इस सीजन में बुवाई अच्छी रहने की उम्मीद है। वर्तमान में, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बुवाई की अच्छी प्रगति की रिपोर्ट से कीमतों की बढ़त पर रोक लग रही है जबकि निर्यात मांग में भी सुधार हो रहा है। पिछले साल किसानों को अधिक कीमत मिलने के कारण इस सीजन में बुवाई अच्छी रहने की उम्मीद है। निजामाबाद, तेलंगाना में 70-80% क्षेत्र में बुवाई पूरी हो गई है। हल्दी की कीमतें निजामाबाद, दुर्गौराला, इरोड और नांदेड़ के बेंचमार्क बाजार में स्थिर रहीं, जबकि सांगली, कमुद्रम के बाजार में मजबूती देखी गई।

जीरा वायदा (अगस्त) की कीमतें पिछले सप्ताह अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गईं और लगातार पांचवें सप्ताह बढ़कर बंद हुईं। घरेलू और निर्यात मांग में सुधार की उम्मीद से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। सपोर्ट 22620 के स्तर पर देखा जा रहा है जबकि रजिस्ट्रेस 24500 के स्तर पर है। वर्तमान में, कम उत्पादन अनुमान और व्यापारियों के पास कम स्टॉक पर कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 79% अधिक हैं। लेकिन उच्च स्तर पर मुनाफावसूली से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिकांश खरीदार इसकी कीमतों में तेज वृद्धि के बाद बाजार से दूर रह सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2022 में जीरा का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 28% कम होकर 14900 टन हुआ है, जबकि 2022 के पहले 5 महीनों में निर्यात पिछले साल के 1.2 लाख टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 48% घटकर 68668 टन रह गया।

मसाला उद्योगों की लगातार मांग के कारण धनिया वायदा (अगस्त) की कीमतें 11500-12900 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि आवक लाभ को सीमित कर सकती है। एक व्यापार विश्लेषक ने कहा कि भौतिक बाजारों में मांग में कमी देखी गई क्योंकि बड़े खरीदारों को उच्च स्तर पर अपनी खरीद जारी रखने के लिए अनिच्छुक देखा गया। बाजार सूत्रों के मुताबिक, आयातित धनिया का स्टॉक अब कम है और घरेलू धनिया की कीमतों में तेजी आई है। नए सीजन की शुरुआत के बाद से, अनुमान से कम उत्पादन के कारण धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। वर्तमान में कीमतें कम निर्यात के बावजूद कीमतें वर्ष-दर-वर्ष लगभग 80% अधिक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2022 में धनिया का निर्यात मई 2021 के 4000 टन की तुलना में 4.7% कम होकर 3800 टन रह गया है जबकि जनवरी-मई के दौरान निर्यात पिछले साल के 23,750 टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 20.4% घटकर 18,900 टन रह गया।

### अन्य कमोडिटीज

हमने पिछले सप्ताह कॉटनऑयलसीड की कीमतों में एक जोरदार उछाल देखा है, और कीमतें 2500 के निचले स्तर से उबरकर 2700 से ऊपर बंद हुईं और अब 2800-2875 तक बढ़त जारी रहने की उम्मीद है। इसलिए कीमतों की गिरावट पर खरीदारी एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। आईसीई और एमसीएक्स दोनों में कॉटन काउंटर में निचले स्तरों से उछाल दर्ज की गई। एमसीएक्स में कॉटन अपनी वार्षिक बढ़त छोड़ने के मूड में नहीं है क्योंकि फंडामेंटल मजबूत हैं और मांग उच्च स्तर पर बरकरार है जबकि आईसीई में कॉटन में पिछले हफ्तों में तेज गिरावट हुई थी। आईसीई में कॉटन की कीमतें 2022 में 158 डॉलर के उच्च स्तर से 37% से अधिक लुढ़क गई है जबकि इसकी तुलना में एमसीएक्स में कॉटन की कीमतों में वार्षिक उच्च स्तर 52140 से लगभग 15% ही गिरावट हुई है। कुल मिलाकर यह अभी भी 2022 में अब तक 28% से अधिक रिटर्न दे रहा है। इसका अलावा, उत्तर भारत का सूती धागा बाजार स्थिर रहा है जिसे बेहतर सेंटीमेंट के लिए पहले संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अगर फसल क्षति रिपोर्ट के अनुसार आपूर्ति को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ती हैं तो बाजार को समर्थन मिल सकता है। कारोबारियों के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ फसल खराब होने की खबर है, लेकिन बाजार को फसल की साफ तस्वीर का इंतजार है। रणनीति की बात करें तो यह मजबूत कमोडिटी है और हमें इसे 45000 के लक्ष्य के लिए गिरावट पर खरीदना चाहिए जबकि 43000 के पास सपोर्ट है।

मौजूदा मानसून के मौसम के कारण हाजिर बाजारों में सुस्त गतिविधियों से मेंथा ऑयल की कीमतों पर दबाव है और यह वायदा बाजार में भी दिखाई दिया जहां कम उत्पादन की उम्मीद के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मेंथा ऑयल में मौजूदा स्तरों से सीमित गिरावट हुई है और दवा कंपनियों से खरीदारी में सुधार की उम्मीद के कारण कीमतें 960-980 रू के निचले स्तर से उछाल दर्ज करते हुए 1040 तक बढ़त दर्ज कर सकती है।

कई हफ्तों तक गिरावट के बाद ग्वार काउंटर की कीमतों की गिरावट पर रोक लगी है हाजिर बाजार में मजबूती के रुख पर नजर रखने वाले सटोरियों की ओर से खरीददारी और उत्पादक क्षेत्रों से कम आपूर्ति के कारण ग्वारसीड की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। इस सप्ताह में ग्वार सीड और ग्वारगम की कीमतों में तेजी बरकरार रह सकती है और कीमतें क्रमशः 5350-5400 और 9700-10000 के स्तर पर पहुंच सकती है।

अरंडी वायदा की कीमतों में 7100 के करीब सपोर्ट के साथ 7450-7500 तक तेजी देखी जा सकती है। कम अंतरराष्ट्रीय मांग के मद्देनजर, विशेष रूप से चीन से, 2022 के पहले पांच महीनों के दौरान अरंडी के तेल के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। भारत के कूल निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ चीन भारत से अरंडी के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। कम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और समग्र मांग के कारण, पिछले साल की तुलना में अधिक कीमतों के बावजूद अरंडी के तेल की कीमतों में तेज गिरावट की संभावना नहीं है।

### सर्पाफा

अमेरिकी डॉलर में तेजी के बीच पूरे सप्ताह सोने की कीमतों में गिरावट हुई और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में आक्रामक वृद्धि की आशंकाओं ने सर्पाफा की मांग प्रभावित हुई। कोमेक्स में सोने की कीमतें एक साल से भी अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर 1680.25 डॉलर पर आ गईं। डॉलर अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले 0.2% बढ़ा, जिससे अन्य मुद्राओं को रखने वाले खरीदारों के लिए सर्पाफा की मांग कम हो गई। यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था यूक्रेन में रूस के युद्ध के प्रभाव से पीड़ित होने के बावजूद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों के साथ शामिल हो गया यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नीति निर्धारक रिकॉर्ड-उच्च मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए कल अपनी बैठक में 11 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में अनुमान से अधिक 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की है। निवेशकों का ध्यान अब अगले सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति बैठक पर है, जहां नीति निर्माताओं से ब्याज दरों में 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की उम्मीद है। सोने की कीमतों में नरमी का रुझान है और जो भी बढ़त देखी जा रही है वे अल्पकालिक हैं। निवेशक सिर्फ यह सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि फंड का मार्गदर्शन दरों पर कैसा होगा। अगर उन्हें अभी भी लगता है कि मुद्रास्फीति एक समस्या है या अभी भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, तो इस सोने की कीमतों में गिरावट होगी। गुरुवार के आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिका में बरोजगारी के शुरुआती दावे आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए और जुलाई में कारखानों की गतिविधि में गिरावट हुई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नवीनतम संकेत है कि यह अधिक ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के दबाव से धीमी हो रही है। इस सप्ताह सोने में उच्च स्तर से बिकवाली जारी रह सकती है जहां इसे 48900 के पास सपोर्ट मिल सकता है और 51500 के पास रजिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। चांदी में भी बिकवाली हो सकती है और कीमतें 52000-58000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

आपूर्ति की कमी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल की कीमतें बढ़ीं, लेकिन अमेरिका में कमजोर मांग के कारण कीमतों पर दबाव बना रहा। आर्थिक मोर्चे पर हालात अभी भी नकारात्मक हैं, लेकिन बाजार में अभी भी तत्काल तेल की एक संरचनात्मक कमी है और इसका मतलब है कि भू-राजनीतिक मोर्चे पर आगे की अनिश्चितता को जानने के लिए भौतिक खरीदार सबसे ऊपर होंगे। फंड अधिकारियों ने संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक अपनी 26-27 जुलाई की बैठक में दर को 75 बेसिस प्वाइंट बढ़ा सकता है। इससे साथ ही मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होगा और दर वृद्धि के दृष्टिकोण में कोई भी नरमी वैश्विक विकास के लिए बहुत अच्छी होगी। उच्च कीमतों के बावजूद भारत में गैसोलिन और डिस्टिलेट ईंधन की मांग जून में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। कुल रिफाईंड उत्पाद की खपत एक साल पहले की तुलना में 18% अधिक हो गई है और भारतीय रिफाइनरियां अपने सबसे अधिकतम स्तरों के पास काम कर रही हैं। एशिया में मजबूत मांग के संकेतों के कारण ब्रेंट बेंचमार्क की कीमतों में बढ़ोतरी हुई जिससे छह सप्ताह में पहली साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। सप्ताह के अंत तक कच्चे तेल में दोनों ओर हलचल जारी रह सकती है, जहां कीमतों को 7350 के पास सपोर्ट मिल सकता है और 8150 के पास रजिस्ट्रेस का सामना कर सकता है। नेचुरल गैस की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि गर्मी की लहर के कारण एयर कंडीशनिंग के उपयोग के लिए गैस की मांग में बढ़ोतरी हुई क्योंकि भीषण गर्मी की लहरें यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फैल गईं। बिजली की मांग लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। नेटगैसवेदर के अनुसार, अगले 7 दिनों तक पूरे अमेरिका में अधिक तापमान का उच्च दबाव रहेगा और कनाडा की सीमा के पास भी काफी अधिक तापमान रहेगा। इस सप्ताह में नेचुरल गैस की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और कीमतें 570-680 के दायरे में कारोबार कर सकती है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर कुछ खूनन कंपनियों ने अपने उत्पादन आउटलुक को कम कर दिया, जबकि यूरोप के कुछ प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में ऊर्जा संकट ने आपूर्ति में कमी की आशंकाओं को कम कर दिया। फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक ने कहा है कि तांबे की मौजूदा कीमतें नई खदानों का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त हैं, जो पहले से ही कम आपूर्ति को अधिक खराब कर सकती हैं। वेले एसए ने अपनी कुछ साइटों पर रखरखाव के कारण 2022 में तांबे के अपने उत्पादन अनुमान को भी घटा दिया है और एंटोफगस्टा पीएलसी ने पानी की कमी और एक भूमिगत पाइपलाइन में रिसाव के कारण पूरे साल में तांबे के उत्पादन लक्ष्य में कटौती की। जिंक और एल्युमीनियम को भी आपूर्ति जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धातुओं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में से एक यूरोप, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहा है। लेकिन कीमतों की बढ़त सीमित रह सकती है क्योंकि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण शीर्ष उपभोक्ता चीन में कमजोर मांग के बीच आउटलुक कमजोर बना हुआ है और वैश्विक स्तर पर बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों वृद्धि की जा रही है, जो वैश्विक मंदी का जोखिम बढ़ रहा है और धातुओं की मांग की कम होने की उम्मीद है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के नीति निर्धारक रिपोर्ट-उच्च मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए कल अपनी बैठक में 11 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में अनुमान से अधिक 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की है। निवेशकों का ध्यान अब अगले सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति बैठक पर है, जहां नीति निर्माताओं से ब्याज दरों में 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की उम्मीद है। तांबे की कीमतें 600-650 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 200-220 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। घटती मांग और अधिक आपूर्ति के कारण एल्युमीनियम की कीमतों में गिरावट हो रही है और आगे भी गिरावट संभव है, लेकिन इसके बने रहने की संभावना नहीं है क्योंकि एल्कोआ ने चेतावनी दी है कि दुनिया की एल्युमीनियम-उत्पादन क्षमता का 20% तक लाभहीन है। जिंक 255-285 के दायरे में कारोबार कर सकता है। सीसा 168-180 के दायरे में चल सकता है। जिंक की कीमतें 255-285 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लैंड की कीमतें 168-180 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

## मुद्रास्फीति ... कमोडिटीज के लिए एक गंभीर झटका

जैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार कोविड-19 महामारी से उबरने लगे, दुनिया भर के उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्च कीमतों के कड़वे स्वाद का सामना करना पड़ा, और मुद्रास्फीति एक विश्वव्यापी घटना बन गई और अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई। लेकिन फरवरी में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक भारी झटका दिया, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला और रसद व्यवधान, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और वित्तीय बाजार में अशांति का दौर शामिल है। यह व्यापक रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। मुद्रास्फीति को समय के साथ किसी मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट के रूप में भी जाना जाता है।

अमेरिकी मुद्रास्फीति की दर जनवरी के 7.5% से बढ़कर जून में 9.1% हो गई और 40 साल के उच्च स्तर पर बरकरार रही। इसीबी के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष जून में 8.6% की मुद्रास्फीति रही है जो 11 वर्षों में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की पहली दर वृद्धि से पहले जून महीने में एक रिकॉर्ड है- जो 2023 और 2024 में 1.8% तक नीचे आने से पहले केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से अधिक है। बैंक ऑफ जापान के आंकड़ों के अनुसार येन में तेज गिरावट के कारण आयात की कीमतों में सबसे तेज गति से वृद्धि होने से जापान में जून में थोक कीमतें एक साल पहले की तुलना में 9.2% उछल गई और यह कच्चे माल की लगातार उच्च लागत का संकेत है जिससे अधिक से अधिक फर्मों को कीमतें बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

## मौजूदा मुद्रास्फीति मौलिक रूप से अलग है

मुद्रास्फीति की दर में हाल ही में दर्ज तेजी पहले की मुद्रास्फीति की अवधि से मौलिक रूप से भिन्न प्रतीत होती है जो नियमित व्यापार चक्र से अधिक निकटता से जुड़ी होती थी। वर्तमान मुद्रास्फीति का मुख्य कारक पहले कोरोनावायरस महामारी और इसके बाद यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जारी व्यवधान है।

## केंद्रीय बैंकों की कार्रवाई अपरिहार्य

मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ब्याज दर में वृद्धि मुख्य उपकरण है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी करके मौद्रिक सखी शुरू कर दी, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। अधिक उधारी दरें उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कोई भी निवेश करने से रोकने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे मांग कम हो जाती है और कीमतों में गिरावट होती है। फेडरल रिजर्व पहले ही तीन बार दरों में बढ़ोतरी कर चुका है, उनमें से अंतिम बार 0.75% की बढ़ोतरी की थी। यह 1994 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि थी। फेड के अनुमानों के अनुसार, 2022 के अंत तक, दरें 3% से 3.5% के बीच होंगी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के नीति निर्धारक रिपोर्ट-उच्च मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए कल अपनी बैठक में 11 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में अनुमान से अधिक 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की है। निवेशकों का ध्यान अब अगले सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति बैठक पर है, जहां नीति निर्माताओं से ब्याज दरों में 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की उम्मीद है। जून में ब्रिटिश मुद्रास्फीति बढ़कर 40 साल के शिखर पर पहुंच गई है, जिससे अगले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दर में आधे प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई।

## उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कमोडिटीज

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कच्चे तेल, नेचुरल गैस और कृषि वस्तुओं जैसी कमोडिटीज की कीमतें शामिल होती हैं। 1991 के बाद से, ऊर्जा से संबंधित कमोडिटीज और व्यापक कमोडिटी सूचकांक, जैसे कि एसएंडपी जीएससीआई और ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स ने सभी कमोडिटीज की मुद्रास्फीति के साथ लगातार उच्चतम स्तर के सहसंबंध का प्रदर्शन किया। उच्च मुद्रास्फीति के बीच सोने ने ऐतिहासिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। जिन वर्षों में मुद्रास्फीति 3% से अधिक थी, सोने की कीमत में औसतन 14% की वृद्धि हुई। इसके अलावा, लंबे समय में, सोना अमेरिकी मुद्रास्फीति से आगे निकल गया है और मुद्रा आपूर्ति की गति के करीब पहुंच गया है, जो हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है।

लेकिन इस बार अपेक्षा से अधिक मुद्रास्फीति उपभोक्ता क्रय शक्ति के साथ-साथ कमोडिटीज की मांग को भी कम कर रही है। उच्च मुद्रास्फीति ने प्रमुख केंद्रीय बैंकों को आक्रामक नीति लागू करने के लिए मजबूर किया है, जो सोने की मांग को कमजोर कर रही है जबकि बेस मेटल की मांग और उनकी कीमतें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति के कारण आने वाली वैश्विक मंदी के डर से गिर रही हैं।



स्रोत: रॉयटर्स एवं अमेरिकी ग्राम ब्यूरो



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एल्ट द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रायक्ताओं की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्योरिटीज एन एन एन के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।